



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1936 (श0)
(सं0 पटना 579) पटना, मंगलवार, 8 जुलाई 2014

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर

कार्यालय आदेश
11 जून 2014

सं0 487—स्व0 निर्मल कुमार सिंह, पत्राचार लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, जमुई का सेवाकाल में दिनांक 28.09.2009 को आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप जमुई जिला स्तर पर गठित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 23.12.2013 जिसकी कार्यवाही जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 27 मुख्य/स्था0 दिनांक 26.12.2013 से प्राप्त है जिसमें की गई अनुशंसा के आधार पर ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर स्तर पर गठित स्थापना समिति की दिनांक 20.05.2014 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में स्व0 निर्मल कुमार सिंह के द्वितीय पुत्र श्री मुकेश कुमार सिंह, ग्राम—जोंगा झिगोई, पों0—जीत झिगोई, थाना— खैरा, जिला—जमुई जिनकी जन्मतिथि 17.01.1978 तथा शैक्षणिक योग्यता इण्टरमिडिएट है को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतन बैंड (5200—20200/—) ग्रेड पे—1900 में योगदान की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, जमुई कार्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित की जाती है कि पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर अपना योगदान निश्चित रूप से दे देंगे अन्यथा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

(2.) स्व0 निर्मल कुमार सिंह के आश्रित परिवार के सदस्यों के भरण पोषण का दायित्व श्री सिंह पर होगी। उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर इसे गंभीर कदाचार माना जायेगा, जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना होने की सम्पुष्टि होने पर इनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

(3.) इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, संबंधित वरीयता के लिए मान्यता नहीं दी जायेगी।

(4.) नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र हर हालत में देना होगा।

(5.) अगर श्री सिंह की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तो उसे अग्रसारित कर दिया जायेगा।

(6.) नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र वास्तविक जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण—पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों को मूल रूप में संबंधित पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना

होगा, जिसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा, जिसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे।

(7) योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(8) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी।

(9) शादी ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने और न देने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(10) उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को लागू की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,
महाराज राम,
अधीक्षण अभियंता।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 579-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>